



स मा चार

विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने की नागपुर में मध्यप्रदेश भवन की स्थापना की पहल

इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भवन से होगी सुविधा: श्री गौतम विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम का नागपुर में सामाजिक संस्था द्वारा स्वागत

भोपाल, 8 सितंबर। मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने नागपुर (महाराष्ट्र) में मध्यप्रदेश भवन की स्थापना की पहल की है। यह भवन मध्यप्रदेश और विशेषकर विंध्य अंचल से इलाज के लिए नागपुर पहुंचने वाले लोगों के ठहरने के लिए एक सर्वसुविधा युक्त भवन होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने बुधवार को नागपुर में मध्य भारत विकास संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में इस भवन के निर्माण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।

श्री गौतम ने कहा कि विंध्य अंचल से हजारों लोग नागपुर में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। रीवा से ही कई बसें भरकर मरीज और उनके परिजन नागपुर में हर सप्ताह आते हैं। अस्वस्थता के कारण ये लोग पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे होते हैं, उस पर नागपुर में रहने-ठहरने में होने वाला खर्च इनकी कमर तोड़ देता है। श्री गौतम ने कहा कि उनके मन में बहुत पहले से यह विचार था कि दिल्ली की तर्ज पर नागपुर में भी मध्यप्रदेश भवन बनना चाहिए, जो कि यहां इलाज कराने आने वाले लोगों के लिए हो। श्री गौतम ने कहा कि पहला प्रयास तो यह होना चाहिए कि सरकार के स्तर पर यह भवन बने, यदि यह मुश्किल है तो फिर कोई ट्रस्ट बनाकर भी यह कार्य किया जा सकता है। श्री गौतम ने कहा कि इस कार्य के लिए अपने स्तर पर पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री गौतम ने कहा कि भवन सर्वसुविधा युक्त होना चाहिए एवं उसमें कैंटीन की भी व्यवस्था होना चाहिए। भवन बनने के बाद भविष्य में वह नियमित रूप से संचालित हो और वहां की व्यवस्थाएं हमेशा बेहतर रहें इस पर भी विचार करना आवश्यक है।

श्री गौतम का नागपुर में मध्य भारत विकास संघ द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर नागपुर में रहने वाले विंध्य अंचल के कई प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे।

श्री गौतम अपने नागपुर प्रवास के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों के कार्यालय भी पहुंचे और वहां संपादकीय टीम के साथ समसामयिक विषय पर संवाद किया।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव